

Dohil Chambers, 46 Nehru Place New Delhi-110 019 (INDIA) Ph.: 91-11-46692690,Fax: 011-41606788 E-mail: ho@everesttools.com CIN: L74899DL1962PLC003634

Pr. No !- 011-46579476

HET/11/2020/ November 05, 2020

To, Manager (Listing) BSE Limited Floor 25, P J Tower, Dalal Street, Mumbai -400001

Re: Company's Code No. 505725

Subject: Submission of newspaper cutting pertaining to Notice of Board Meeting to be held on 11th November, 2020 for approval of Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the Newspaper cuttings pertaining to Notice of Board Meeting to be held on 11th November, 2020 for approval of Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020, published in the newspapers namely The Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 05th November, 2020.

You are requested to kindly take the same in your records.

Thanking you,

Yours faithfully

For Hindustan Everest Tools Ltd.

Sonam Gupta

Sovar

Company Secretary & Compliance Officer

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

Registered Office: B-2/8 SAFDARJUNG

ENCLAVE NEW DELHI -110029

CIN-L74899DL1988PLC031191

Notice is hereby given pursuant to Regulation

29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, that a meeting of the Board

Wednesday, 11" November, 2020 at 2:00 P.M.

available on the Company's website at www.bagla-

Regd. Office:-25, Bazar Lane, Bengali Market,

New-Delhi-110001

CIN: L15142DL1991PLC046469;

Tel. No.: 011-43585000, Fax: 0141-43585015,

E-mail: cs@superiorindustrial.in,

Website: www.superiorindustrial.in

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29

read with Regulation 47 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of

Directors of the Company is scheduled to be held on

Thursday, 12th November, 2020 at 1010,10th Floor,

Vijaya Building, Barakhamba Road, New Delhi-

110001 to consider and approve the unaudited

Standalone & Consolidated Financial Results of the

Company for the quarter and half year ended 30°

September, 2020 and other matters as per the

The said notice is also available on the website of

available on the website of the Company

For Superior Industrial Enterprises Limited

For Trinity League India Limited

For: A Infrastructure Limited

Kuldeep Kaw

DIN: 07882201

(Company Secretary & Compliance officer)

Piyush Kumar Srivastava

MeghaRastogi

Company Secretary

and Compliance Officer

quarter ended on 30" September, 2020.

BSE Limited-www.bseindia.com.

Place: New Delhi

Date: 04.11.2020

agenda item.

(www.superiorindustrial.in).

Date: 04.11.2020

Place: New Delhi

RAJASTHAN PETRO SYNTHETICS LIMITED CIN-L17118RJ1983002658 Repd. Office: Flat No. 201.8-B. Oasis Tower New Navratan Complex, Bhuwana, Udaipur-313001 (Rajasthan) E mail: investors@rpsl.co.in, Website: www.rpsl.co.in

NOTICE Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 11" November, 2020 at 03.00 p.m. inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30" September, 2020. The notice is also available on website of the company www.rpsl.co.in and also on the website of the stock exchange www.bseindia.com.

By Order of the Board For Rajasthan Petro Synthetics Limited Place: New Delhi B.R. Goyal Date: 04.11.2020

(Formerly known as Archit Holdings & Credits Limited) Regd. Office: 37th, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Pahargani, Delhi-110055 (E) sharplinebroadcastlimited@gmail.com, (W)www.sharplinebroadast.in CIN: L22100DL1990PLC039464. Phone: 011-23552627

Sharpline Broadcast Limited

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board o Directors of the Company will be held on Wednesday 11th November, 2020 at 3.00 P.M. at the Regd. Office of the Company, interalia, to consider and take on record the unudited Financial Results for half year and guarter ended 30*September, 2020 and any other businesses

as may be considered necessary.

Place: New Delhi (Shalu Garg) Date: 04.11.2020 Company Secretary M.No: A44353 C-304, Sansad Vihar Apartments, Plot No.-02. Sector-3, N.S.L.T. Dwarka-110078

By order of the Board

For Sharpline Broadcast Limited

SABOO BROTHERS LIMITED Regd. Off.: 332, B-Block, Anand Plaza, University Road, Udaipur RJ 313001 IN (CIN: L01100RJ1979PLC001851) NOTICE

Pursuant to Regulation 29, 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Board Meeting of the Company will be held on Thursday, November 12, 2020 at the registered office of the Company at 4.00 p.m., inter alia, to consider and approve the following: a) The Un-Audited Standalone Financial

Results of the Company for the quarter and half

year ended 30th September, 2020 and Limited Review report thereon; b) Re-constitution of Board; and

c) Any other items. The said intimation is available on the

Company's website at www.saboobrothers.com and on the website of stock exchange www.bseindia.com Place: Udaipur For Saboo Brothers Limited

Date: 04/11/2020 ROOP LAL BALAI Whole Time Director, DIN-08451425

MISHKA EXIM LIMITED Read. Office: G-31. Ground Floor. Cross River Mall, CBD Ground, Shahdara, New Delhi-110032

CIN: L51909DL2014PLC270810 website- www.mishkaexim.com

E-mail - MISHKAEXIM@GMAIL.COM NOTICE Pursuant to Clause 29 of SEBI (Listing

Obligation and Disclosure Requirements), 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, November 11, 2020 at 03:30 P.M at registered office of the company inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on September 30, 2020.

> By Order of the Board For Mishka Exim Limited Rajneesh Gupta

Managing Director Date: 04.11.2020 DIN: 00132141 Place:New Delhi

LEASING LIMITED

Regd. Office: D2-11, Budh Vihar,

Phase-1, New Delhi 110086 (DL)

E-mail: sns.prop.ltd@gmail.com

CIN: L65922DL1985PLC020853

Website: www.snsind.com

NOTICE

Notice is hereby given that a

meeting of Board of Directors

will be held on Thursday the

12th Day of November, 2020

to consider & approve the Un-

audited Financial Results of the

company for the quarter and

For SNS Properties And Leasing Ltd

SRI AMARNATH FINANCE LIMITED

Regd. Office: 4883-84, Second Floor, Main

Road Kucha Ustad Dag, Chandni Chowk,

Delhi-110006

CIN:L74899DL1985PLC020194

Email:amarnath01finance@gmail.com

Contact: 011-23953204

Pursuant to Regulation 47(1)(a) of SEBI

(LODR) Regulation, 2015, notice is hereby

given that a meeting of Board of Directors of

the Company has been scheduled to be held

on Wednesday, the 11th November, 2020 to

consider and approve the un-audited

Financial Results for the quarter and Six

The said notice can be accessed at

|Company's website at http://

www.sriamarnathfinance.in/indexf39a.

html?event=Board%20Meeting%20

Notice and also on BSE website at

Place: Delhi (CS & Compliance Officer)

COUFLEX

'A part of your daily life'

UFLEX LIMITED

CIN: L74899DL1988PLC032166

Regd. Off.: 305, 3" Floor, Bhanot Corner,

Pamposh Enclave, Greater Kailash-I,

New Delhi-110 048, Phone: +91-11-26440917

26440925, Fax: +91-11-26216922

Website: www.uflexltd.com

Email: secretarial@uflexltd.com

Notice

Notice is hereby given that a Meeting of

Board of Directors of UFLEX Ltd., will be

held on Wednesday 11" November, 2020

at NOIDA inter-alia to consider and

approve, the Unaudited Financia

Results for the Quarter & Six Months

the website of the company a

www.uflexltd.com and on the websites of

the stock exchange www.bseindia.com

Sr. V.P. (Legal) & Company Secretary

Add : C-001, Krishna Apra Residency

financialexp.epapr.in

For UFLEX LIMITED

AJAY KRISHNA

ACS No.3296

E-8, Sector-61

This intimation is also available or

ended 30" September, 2020.

and www.nseindia.com

Place : New Delhi

For Sri Amarnath Finance Limited

(Sumit Bajaj)

www.bseindia.com.

Date: 04.11.2020

month ended on 30th September, 2020.

By order of the Board

(Harwinder Kaur)

half year ended 30.09.2020.

Place: New Delhi

Date: 04.11.2020

04.11.2020 SNS PROPERTIES AND

ALCHEMIST REALTY LIMITED

New Delhi

permission of the chair.

Date- 03-11-2020

Place- New Delhi

BSE(https://www.bseindia.com).

Financial Results of the Company.

declaration of the aforestated results.

301 September, 2020

DHANVANTRI JEEVAN REKHA LTD. Saket, Meerut - 250 003 Ph.: 0121-2648151-52, 2651801 Fax-0121-2651803

e-mail: dhanvantrihospital@gmail.com; website: www.djrl.org.in

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is schedule to be held on Thursday, the 12" Day of November, 2020 at 12:00 p.m. at Meerut inter alia to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30° September 2020. The said notice is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com), where the Company's securities are listed and shall also be

NOTICE

For Dhanvantri Jeevan Rekha Limited Place: Meerut (PREMJIT SINGH KASHYAP) Director Date: 04.11.2020

available on the website of the Company (www.djrl.org.in)

Form No. INC-26

(Pursuant to rule 30 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014)

Before the Central Government

Regional Director, Northern Region, New Delhi

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of

Companies Act, 2013 and clause (a) of

sub-rule (5) of rule 30 of the Companies

AND

In the matter of

ULTIMATE INVESTOFIN LIMITED

(CIN: U65933DL1991PLC266069)

having its Registered Office at

D-26,DSIIDC Complex, Kirti Nagar,

New Delhi-110015

NOTICE is hereby given to the General Public

that the company proposes to make application

to the Central Government under section 13 of

alteration of the Memorandum of Association of

the Company in terms of the special resolution

passed at the Extra Ordinary General Meeting

Any person whose interest is likely to be affected

by the proposed change of the registered office of

the company may deliver either on the MCA-21

portal (www.mca.gov.in) by filing investor

complaint form or cause to be delivered or sen

by an affidavit stating the nature of his / he

interest and grounds of opposition to the

Regional Director, Northern Region, Ministry of

Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pandit

Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex

New Delhi-110003 within Fourteen days from the

date of publication of this notice with a copy to

the applicant company at its Registered Office at

For & on behalf of Applicant

GURPREET SINGH

STARLIT POWER SYSTEMS LIMITED

Registered Office- A-1/51, LGF Safdarjung Enclave,

New Delhi 110029

CIN-L37200DL2008PLC174911 E-mail- info@starlitgroup.net

Website - http://www.starlitpower.com

Ph.: +91 11 26102570, 46027970, 46037870

Pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of

the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is

hereby given that a meeting of the Board of Directors of the

company is Schedule to be held on Thursday, the 12" day of

November, 2020, inter-alia to consider and approve Un-audited

Financial Results for the company for the quarter ended as on

The said notice is also available at company's website at

http://www.starlitpower.com and may also be accessed on the

Pursuant to the "Starlit code to regulate, monitor and report trading

by Directors, Promoters, Designated Employees and Connected

Person of the Company and the Material Subsidiaries of the

company' the Trading Window Close Period has commenced

from October 1, 2020 and will end 48 hours after the date of

For Starlit Power Systems Limited

Regd. Office: Building No. 23, Nehru Place, New Delhi- 110019

CIN: L21100DL1983PLC334800: website- www.alchemistrealty.com,

E-mail - investors.realty@alchemist.co.in,

Phone No. 011-40600800, Fax No. 011-40600888

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is

hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company is

scheduled to be held on Thursday, the 12th Day of November, 2020, at

12:30 P.M. inter-alia, to consider and approve the Unaudited Standalone

/Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year

Ended on September 30, 2020 and any other business matter(s) with the

The above details may be accessed on the website of the Company

(www.alchemistrealty.com) as well as on the website of stock exchangei.e

Pursuant to Code of conduct to regulate, monitor and report trading by all the

designated persons and their immediate relatives, the trading window close

period has been commenced from 01st October, 2020 and will reopen on

14th November, 2020 i.e., after 48 hours of declaration of the Unaudited

Lavan Raheja

M. No - 55438

Company Secretary

Stock Exchange website at https://www.bseindia.com

DIN: 07021196

(Director

ULTIMATE INVESTOFIN LIMITED

the address mentioned below:

New Delhi-110015

Place: New Delhi

D-26,DSIIDC Complex, Kirti Nagar,

by registered post of his /her objections supported

"State of Haryana"

.. Applicant Company / Petitioner

(Incorporation) Rules, 2014

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED CIN: L74899DL1989PLC035140 Regd Off.: Kanchenjunga, 5th Floor, 18, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Tel. No: 011- 43745000 E-mail: dsil@dcmsr.com Website: www.dcmsr.com NOTICE

NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 12.11.2020, inter-alia, to consider and approve unaudited financial results (both standalone & consolidated) for the guarter and half year ended on 30.09.2020. For further details please refer www.dcmsr.com/www.bseindia.com

For DCM Shriram Industries Ltd.

Y.D. Gupta

Company Secretary FCS 3405

Date: 04.11.2020 the Companies Act, 2013 seeking confirmation of

> MODI NATURALS LIMITED Read, Office: 405, Deepali Building, 92

Ankit Agarwal Company Secretary

MADHAV MARBLES & NAM SECURITIES LIMITED CIN: L74899DL1994PLC350531 **GRANITES LIMITED** Regd. Off: 213, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001

Email Id: compliance@namsecurities.in.

Website: www.namsecurities.in.

Tel: 011-23731122/44

NOTICE

Notice is hereby given Pursuant to Regulation 29

read with Regulation 47 of SEBI (Listing

Obligations & Disclosure Requirements

Regulations, 2015, a Meeting of Board of Directors

of Nam Securities Limited is scheduled to be held

on Friday, November 13, 2020 at its registered

office at 213, Arunachal Building, 19, Barakhamba

Road, New Delhi-110001 at 02.00 p.m. inter-alia, to

consider and approve Un-Audited Financial

Results of the Company for the Quarter and half

Further, in accordance with the provision of SEBI

(Prohibition of Insider Trading) (Amendment)

Regulations, 2018, Company's Code of Conduct to

PRABHAT SECURITIES LIMITED

CIN: L22022UP1982PLC005759

R/O: 118/610 A, Kaushalpuri - 208012

Ph: 512-2526347.

E Mail: prabhatsecurities@gmail.com, Website: www.prabhatsecuritiesltd.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with

egulation 47 of the Securities and

exchange Board of India (LODR)

Regulations, 2015, NOTICE is hereby

iven that (06/2020) Board Meeting of the

Company is scheduled to be held at its

Regd. Office, Kanpur on Thursday 12th

September, 2020 at 12.30 P.M., inter alia

Financial Statements of the Company

The trading window in respect of

company's securities shall open after 48

hours of declaration of financial result of

the Company for the Quarter and half

the Company's website at http://www.

prabhatsecuritiesItd.com and may also

be accessed at CSE & MSEI website at

http://www.cse-india.com &

Ramakant Kushwaha

--sd---

The said Notice may be accessed on

year ended 30th September, 2020.

For: NAM Securities Limited

(Kiran Goyal)

Managing Director

DIN: 00503357

vearly ended 30° September, 2020.

public on November 13, 2020.

Date: 05.11.2020

Place: Delhi

website (http://www.namsecurities.in/).

Regd. Off.: First Floor, Mumal Towers. 16, Saheli Marg, Udaipur-(Raj.) 313001 CIN: L14101RJ1989PLC004903. Web: www.madhavmarbles.com Email: investor.relations@madhavmarbles.com

Tel: 0294-2981666 NOTICE)

ereby given that a meeting of the Board of Pursuant to Regulation 29 of the SEB Directors of the Company will be held on hursday,12°November, 2020 at 03:00 P.M. at (Listing obligations and Disclosure the Regd. Office of the Company, interalia, to Requirements) Regulations, 2015, we would consider and take on record the Unaudited like to inform that the meeting of the Board of inancial Results for the quarter and half year Directors of the Company is scheduled to be ended 30" September, 2020 and any other held on Wednesday, November 11, 2020 to businesses may be considered necessary. transact the following matters To consider and approve the Unaudited Place: New Delhi

egulate, Monitor and Report Trading by Insider and BSE circular dated 2nd April, 2019 regarding Standalone and Consolidated Financial clarification on trading restriction period, the trading Results of the Company for the guarter and window shall continue to be closed till the period ended September 30, 2020 completion of 48 hours after the results are made 2. To consider any other business with the This intimation is available on BSE website permission of the Chair. (https://www.bseindia.com/) and on the Company's

By Order of the Board For Madhav Marbles & Granites Ltd.

Priyanka Manawat Date: November 04, 2020 Company Secretary

MASTER TRUST LIMITED Regd. Office: Master Chambers.

3rd Floor, 19, Feroze Gandhi Market, Ludhiana-141001 (Pb) CIN: L65991PB1985PLC006414 Tel. No.: 0161-5043500

E-mail: secretarial@mastertrust.co.ir Website: www.mastertrust.co.in NOTICE

Notice is hereby given that a meeting

of Board of Directors will be held on Friday the 13th Day of November 2020 to consider & approve the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the company for the quarter and half

year ended 30.09.2020. By order of the Board For Master Trust Limited

(Vikas Gupta) Place: Ludhiana Company Secretary Date: 04.11.2020 & Compliance Officer

BHAGAWATI GAS LIMITED

(CIN: U24111RJ1974PLC005789) Regd. Office: Banawas, Khetri Nagar, Jhunjhunu-333504, (Rajasthan) Corp. Office: S-492/A Greater Kailash - I w Delhi - 110048. Phone: +91-11 4912071 Email: bhagwatigases@gmail.com

Regulation 29 & Regulation 33 read with Regulation 47 and other applicable regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of the Directors of Bhagawati Gas Limited is scheduled to be held on Thursday, November 12, 2020 at 02.00 P.M. at the Corporate Office of the company situated at S-492/A, Greater Kailash - I , New Delhi - 110048 inter-alia to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020, and any other matter with the permission of chair.

The information contained in this notice is www.balaroup.in.

For Bhagawati Gas Limited

RAKESH SAMRAT BHARDWAJ Chairman & Managing Director

DIN: 00029757

Place: New Delhi | Date: 04.11.2020

Place: New Delhi

The notice is also available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.hotelclarks.com For U. P. Hotels Limited

Date: 04.11.2020

delisting process initiated by the Company.

Prakash Chandra Prusty

(Company Secretary)

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Regulation 31(2) read with Regulation 12(3) of the Insolvency and

Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF STAKEHOLDERS OF PREMSONS SUPER STEELS PRIVATE LIMITED - IN LIQUIDATION

Pursuant to Regulation 31(2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, Public Announcement is hereby made that the List of Stakeholders of Premsons Super Steels Private Limited - in Liquidation ("Corporate Debtor") prepared by the Liquidator, has been e-filed with the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench III, New Delhi on 04.11.2020. As there is no functional website of the Corporate Debtor, hence the List of Stakeholders can be viewed on the following link: http://embeeip.com

MOHIT CHAWLA

In the matter of M/s PREMSONS SUPER STEEL PRIVATE LIMITED IP Registration no. IBBI/IPA-001/IP-P00524/2017-2018/10949 SCO-2935-36, Level-1, Sector-22C, Chandigarh Reg. Email-id: ipservices@embeegroup.in

DATE: 04.11.2020 PLACE: CHANDIGARH

Correspondence Email-id: ip.premsonssupersteel@gmail.com

Him Teknoforge Limited (Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited) CIN: L29130HP1971PLC000904

Registered Office: Village Billanwali, Baddi , Distt: Solan (H.P)-173205 Telephone No.:+91(1795) 245466 Fax No.:+91(1795)245467 E-mail: gujarat.gears@gmail.com, Website: www.gagl.net NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (Listing)

Regulations), Notice is hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 12° day of November, 2020 at 12:00 noon at Corporate Office of the Company situated at S C O 19, First Floor, Sector-7 C, Chandigarh, inter-alia to consider and approve Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on The said notice may be accessed on the Company's website at http://www.gagl.net.an

may also be accessed on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com. Further, the Trading Window in respect of dealing in Equity Shares of the Company is already closed for all the Insiders, Directors, Connected Persons and Designate Employees of the Company, and shall open 48 hours after conclusion of the Board

> (Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited) Abhishek Misra

Company Secretary Place: Baddi Manager Secretarial and Legal Date: 04.11.2020

Date: 04.11.2020

ARGL Limited

For Him Teknoforge Limited

CIN: U74899DL1995PLC070717 Form No. INC-26 [Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Before the Central Government, Through Regional Director -Northern Region In the matter of Sub-Section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013, and

clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of ARGL Limited having its Registered Office at Building 108 B, 3rd Floor, Madangir Village, New Delhi-110062Applicant Company

NOTICE Notice is hereby given to the general public that the Company proposes to make an

application to the Central Government (through Regional Director - Northern Region) under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on 13th May, 2020 to enable the Applicant Company to change its Registered Office from the 'NCT of Delhi' to 'State of Haryana' Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the

Registered Office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/ her objections supported by an affidavit stating the nature of his/ her interest and grounds of opposition to the Regional Director Northern Region at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, Cgo Complex, New Delhi - 110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office at the address Building 108B, 3rd Floor, Madangir Village, New Delhi-110062. For and on behalf of the

New Delhi

ARGL Limited Sd/-Rakesh Darbari (Whole-Time Director)

DIN: 06596678

JAGAN LAMPS LIMITED ed Office: Narela Piao Manihari Road Kundli, District- Sonipat, Haryana-131028 Tel.: +91 88148-05077. Email: cs@jaganlamps.com Web: www.Jaganlamps.com CIN: L31501HR1993PLC033993

ON 11.11.2020 Notice is hereby given that pursuant to of Directors of the Company will be held on regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for that a Board Meeting of JAGAN LAMPS LIMITED will be held on Wednesday 11th The information contained in this notice is also November, 2020 to inter alia, consider, approve and take on record the Un-audited Financia group.com and the website of the Stock Exchange Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020. For Hindustan Adhesives Limited For Jagan Lamps Limited

M.S. Bagla SANDEEP YADAV Date: 04th Nov. 2020 Managing Director Place: Kundli (Sonipat) Company Secretary DIN-01425646 SUPERIOR INDUSTRIAL ENTERPRISES LIMITED Sadhna Broadcast Limited

> Network Limited) Regd. Office: 37, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj, Delhi- 110055 (E) cbnl.delhi@gmail.com, (W)www.sadhnabroadcast.com CIN: L92100DL1994PLC059093 Phone: 91-11-23552627 NOTICE ursuant to Regulation 29 read with Regulation

(Formerly known as Chirau Broadcast

47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is ereby given that a meeting of the Board of irectors of the Company will be held or /ednesday, 11"November,2020 at 04.30 P.M the Regd. Office of the Company, interaliaTo onsider and take on record the Unaudited nancial Results for Quarter and half year ended 30° September, 2020 and any other businesses as may be considered necessary. By order of the Board For Sadhna Broadcast Limited

BSE Limited (www.bseindia.com) where the Place: New Delhi Company's securities are listed and shall also be Date: 04.11.2020

DIN: 06799570 24/27 Front Side, West Patel Nagar Delhi 110008 VINAYAK P⊕LYC⊕N

(Tajinder Kaur)

Managing Director

∕ Internati⊕nal Ltd. CIN No.: L25209RJ2009PLC030620 Regd. Office: 312, Navjeevan Complex. 29, Station Road, Jaipur-302006 (Raj.) India Tel. No. +91-141-2377007

Pursuant to Regulation 47(1) (a) of the SEBI (Listing

NOTICE

Obligations and Disclosures Requirements egulations, 2015, Notice is hereby given that a neeting of Board of Directors of the Company will be eld on Thursday, 12th day of November, 2020 at 10:00 A.M. at its Registered Office 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur, inter alia, to consider and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the guarter and half year ended on 30th September, 2020. This information is also available on the website of

also on the website of BSE Ltd, where the shares of the company are listed at www.bseindia.com. By Order of the Board,

the company at www.vinayakpolycon.com and

Date: 04.11.2020 Company Secretary & Place: Jaipur Compliance Officer

HINDUSTAN EVEREST TOOLS LIMITED Regd. & H.O. 46, Dohil Chambers, 4th Floor, Nehru Place, New Delhi 110 019

CIN: L74899DL1962PLC003634 **Ph**: 91-11-46579476 E-mail: admin@everesttools.com, Web-site: http://www.everesttools.com

Notice of the Board Meeting Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 read with regulation 47 and other applicable regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations

2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held or Wednesday, 11th November, 2020 at the registered office of the Company inter-alia, to consider, approve & adopt the Un-Audited Financial Results for the Quarter and half year ended on 30th September, 2020 and any other item of business as mentioned in agenda.

This intimation is also available on the website of the Stock Exchanges where the shares of the company are listed a www.bseindia.com and also on the website

of the company i.e. www.everesttools.com. For Hindustan Everest Tools Limited Sonam Gupta

Place: New Delhi Company Secretary Date: 4th November, 2020 THE DELHI SAFE DEPOSIT

COMPANY LIMITED (CIN: L74899DL1937PLC000478) Registered Office: 86, JANPATH, NEW DELHI-110001 (INDIA)

Email: delsafe@dsdgroup.co.in, Website: www.dsdgroup.co.in Phone: 011-43580400, 23323223 NOTICE

ursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, it is hereby informed hat the meeting of the Board of the Directors of M/s The Delhi Safe Deposit Co. Ltd. is scheduled to be held on Wednesday, 11" November, 2020 at 11:30 AM (Through Video Conferencing) inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the 2" Quarter and half year ended 30" September 2020, in compliance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement)

Regulations, 2015 and to take up allied and other matters. Further, in accordance with the provision of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Amendment) Regulations, 2018 the "Trading Window" close period has commenced from Thursday, 1" October 2020 for all Directors, Officers and designated Employees of the Company till

Friday, 13" November, 2020.

The Delhi Safe Deposit Co. Ltd. Place: New Delhi (Vijay Kumar Gupta) Dated: 04/11/2020 Managing Director/ CEO Form No. INC-25A

Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs Northern Region

In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41

of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of M/s Andru Products Limited having its registered office at D-11 S.M.A Co-Op Industrial Area G.T. Karnal Road New

section 14 of the Companies Act, 2013 read

with aforesaid rules and is desirous of

Delhi-110033. Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under

converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 12th day of October 2020 to enable the company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered

or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional director Northern region B-2 Wing, 2nd Floor Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi-110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

D-11 S.M.A Co-Op Industrial Area G.T. Karnal Road New Delhi - 110033 For and on behalf of the Applicant

Date:-05.11.2020 Ashish Jain Place: New Delhi DIN: - 00849914 D-11 S.M.A Co-Op Industrial

Area G.T. Karnal Road New Delhi - 110033

there is" on the date mentioned below, for recovery of dues as mentioned hereunder to Union Bank of India from the below mentioned Borrower(s) & Guarantor(s). The Reserve Price & the Earnest Money Deposit or also mentioned hereunder. Branch Name: Specialised Mid Corporate • Address: 15/200, Ballabh Arcade, Civil Llnes, Kanpur, Branch Head: Shri Pyare Lal • Mob.: 9870110222

Arya Samaj Mandir, Station Road, Distt. Mainpuri (U.P.) (2) Smt. Mithlesh Kumari Yadav W/o Shri Rajendra Singh Yadav, R/o Naya Devpura, Part-1, Anshik Opp. Arya Samaj Mandir, Station Road, Distt. Mainpuri (U.P.) (3) Shri Anil Kumar Agarwal S/o Shri Anand Swaroop Agarwal, R/o 233, Narayan Nagar, Punjabi Colony, Distt. Mainpuri (U.P.) (4) Shri Sunil Kumar Agarwal, S/o Shri Anand Swaroop Agarwal, R/o 233, Narayan Nagar, Punjabi Colony, Distt. Mainpuri (U.P.). Name of Guarantors: (1) Smt. Rekha Rajendra Singh Yadav W/o Shri Rajendra Singh Yadav, R/o P-4 Building, Empire Estate, Plot 1201, 1202, 12th Floor, Pimpari, Distt. Pune (Maharastra). (2) Smt. Shobha Agarwal W/o Shri Anil Kumar Agarwal, R/o 233, Narayan Nagar, Punjabi Colony, Distt. Mainpuri (U.P.) (3) Smt. Anju Agarwal W/o Shri Sunil Kumar Agarwal, R/o 233, Narayan Nagar, Punjabi Colony, Distt. Mainpuri (U.P.) (4) Shri Rajendra Singh Yadav S/o Shri Atar Singh Yadav, R/o (a) 6th Floor, ION 7, Mahalaxmi Heights (Opp. Sterling Honda Showroom) Morwadi, Pimpari, Distt. Pune (Maharastra) (b) Naya Devpura, Part-1, Anshik Opp. Arya Samaj Mandir, Station Road, Distt. Mainpuri (U.P.) (5) Smt. Mithlesh Kumari Yadav W/o Shri Rajendra Singh Yadav, R/o Nava Devpura, Part-1, Anshik Opp. Arya Samaj Mandir, Station Road, Distt. Mainpuri (U.P.) (6) Shri Anil Kumar Agarwal S/o Shri Anand Swaroop Agarwal, R/o 233, Narayan Nagar, Punjabi Colony, Distt. Mainpuri (U.P.) (7) Shri Sunil Kumar Agarwal, S/o Shri Anand Swaroop Agarwal, R/o 233, Narayan Nagar, Punjabi Colony, Distt. Mainpuri (U.P.). O/s Amount as per Demand Notice: Rs. 10,39,07,174.50 + Interest & other Expenses.

(U.P.) in the name of Sri Rajendra Singh Yadav, Area: 2060 sq.mtr., Bounded: North: Radharaman Road (Bhogaon) ki Road, South Other House, East: Road then House of Ravindra Singh, West: House of Yadav Ji. Date & Time of E-Auction: 26-11-2020 at 11.00 am to 1.00 pm Reserve Price: Rs. 391.85 Lac, Earnest Money to be deposited Rs. 39.19 Lac. For detailed terms and condition of the sale, please refer

to the link provided in https://www.unionbankofindia.co.in// english/TendelViewAllAuction.aspx Property: (2) Free hold Premises No. 1340/1 situated at Station Road, Mohalla-Uttari Chhapatti, Mainpuri (U.P.) in the name of Sri Rajendra Singh Yadav, Area: 60.26 sq.mtr., Bounded: North: House of Subodh Kumar Gupta, South: Station Road then Christian Inter College, East: Plot of Smt. Sharda Devi & Smt. Sunita, West: Aarazi of Rakesh Kumar Jain.

the link provided in https://www.unionbankofindia.co.in// english/TendelViewAllAuction.aspx For Registration and Login and Bidding Rules visit https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

Date: 05.11.2020 Place: Mainpuri

neld on Wednesday, 22nd July, 2020 to enable Nehru Place, New Delhi-110019 the company to change its Registered office from (CIN: L15142DL1974PLC007349) "National Capital Territory of Delhi" to the NOTICE NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on November 10, 2020, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended September 30, 2020. The said Notice of Board Meeting is available on the website of the Company and BSE at

> Place: New Delhi Date: 04.11.2020

www.modinaturals.org, www.bseindia.com. For Modi Naturals Ltd

to consider and approve the Un-Audited for the quarter and half year ended 30th September, 2020.

> http://www.msei.in. For Prabhat Securities Limited

Date: 14.11.2020 (Managing Director) INTEC CAPITAL LTD Regd. Office: 708, Manjusha Building, 57, Nehru Place, New Delhi-110019 APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESION NOTICE Whereas, The undersigned being the authorized officer of the INTEC CAPITAL LTD under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest (Act, 2002(54 of 2002) and in exercise of

kumarMaheswari (Co-Borrower/Mortgagor) (3) Ms. Ajay Kumar (Co-Borrower) (4) Mrs. Kiran Kumar (Co-Borrower) (5) M/s Hi-king Electonics& Furniture (Co-Borrower) (6) Mrs. Sangeeta Maheshwari (Co-Borrower), (Loan agreement NoLNNOIO3415-160006015) to repay the amount mentioned in the notice being 2.18.43.396/- (Rupees Two Crore Eighteen Lac Forty Three Thousand Three Hundred Ninety Six (within 60) days from the date of the receipt of the said notice The Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below pursuant to the order dated 19.09.2020 passed by Ld. CMM, Shahdara and in exercise of the

powers conferred under section 13(12) read with [rule 3] of the security interest

(Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice dated07thFeb 2018calling

upon the Borrower (1) M/s World Electronic Zone (Borrower) (2) Mr. Raj

read with rule 8 of the security interest Enforcement Rules, 2002, on this 2nd day of November of the year 2020. The Borrower/mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and dealings with the property will be subject to the charge of the INTEC CAPITAL LTD for an amount of 2,18,43,396/- (Rupees Two Crore Eighteen Lac Forty Three Thousand Three Hundred Ninety Six) as on the date given in the Demand Notice and

powers conferred on the undersigned under sub-section (4) of section 13 of act

The Borrower's attention is invited to provision of sub section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Description of immovable Property All that part and parcel of residential/commercial Property

Land/Building/Structure and Fixtures situated at Property Number 366/12(Old No. - 1449/3, Plot No. -3), 100 Foota Road, DurgapuriExtn., Shahdara, Delhi -Bounded by -On the North by-Road 15 ft

On the South by- Road 100'ft On the East by- Property No. { 366/13} Old No. 1449/2

On the west by - Property No.{ 366/11} Old No. 1449/4 Date: 05-11-2020

Place: Nehru Place, New Delhi

Authorized Officer INTEC CAPITAL LTD

ALCHEMIST LIMITED Regd. Office: Building No. 23, Nehru Place, New Delhi- 110019, CIN: L72200DL1988PLC192643, Website - www.alchemist.co.in,

E-mail - investors@alchemist.co.in, Phone No. 011-40600800, Fax No. 011-40600888

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing

September 30, 2020 and any other business matter(s) with the permission The above details may be accessed on the website of the Company

designated persons and their immediate relatives, the trading window close period has been commenced from 01st October, 2020 and will reopen on

Date- 03.11.2020

DIN: 03609482 यूनियन बैंक ऑफ झेडबा **(S)** Union Bank

Anup Nargas

Whole Time Director

For Alchemist Realty Limited

Kanpur Regional Office: 117/H-1/240, Pandu Nagar Kanpur-208005 Head Office: 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021 SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable assets under the securitisation and Reconstruction of Financial assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 Read with Proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured creditor, the constructive possession of which has been taken by the authorized officer of Union Bank of India (Secured Creditor), will be sold on "As is Where is," "As is What is," and "Whatever

Name of Account: M/s Sai Foundation - Unit Siddhant School of Medical Sciences and Hospital, Address: Mauza Nauner, Distt. Mainpuri (U.P.), Name of Directors: (1) Shri Rajendra Singh Yadav S/o Shri Atar Singh Yadav, R/o (a) 6th Floor, ION 7, Mahalaxmi Heights (Opp. Sterling Honda Showroom) Morwadi, Pimpari, Distt. Pune (Maharastra) (b) Naya Devpura, Part-1, Anshik Opp.

Property: (1) Plot No. 23 situated at Free hold Premises, Mauja Kharpari (Near Uttar Pradesh Bhumi Sudhar Nigam Office), Mainpuri

Date & Time of E-Auction: 26-11-2020 at 11.00 am to 1.00 pm Reserve Price: Rs. 71.39 Lac, Earnest Money to be deposited Rs. 7.14 Lac. For detailed terms and condition of the sale, please refer to

Authorized Officer, Union Bank of India

Place: New Delhi

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Thursday, the 12" Day of November, 2020 at Noida, Uttar Pradesh, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half year ended 30" September 2020. The information contained in this notice will also available on the Company's website www.trinityasia.in and also, on Stock Exchange website www.bseindia.com.

Place: Noida

Place: Bhilwara

Date: 04.11.2020

Place: Gurugram

Date: 04-11-2020

Leading Leasing Finance and

Investment Company Limited Regd. Office: 611, Sixth Floor, Pragati

Station New Delhi 110008

(E) leadingleashing@gmail.com, (W)www.llflltd.com CIN: L65910DL1983PLC016712,

Phone: 011-25876635

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation

47 of the SEBI (Eisting Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, notice is

By order of the Board

DIN: 06792048

For Leading Leasing Finance and

8, Giriraj, 2nd Floor, Khotochiwadi, V.P. Rd.

RAMSONS PROJECTS LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC063708

Regd. Off.: 815, 8th Floor, Hemkunt Chambers

89, Nehru Place, New Delhi-110019

Website: www.ramsonsprojects.com,

Email ID: corprelations@ramsonsprojects.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation

47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations 2015, notice

hereby given that the Meeting of the Board

Directors of the Company is scheduled to be

held on Monday, November 09, 2020, a

Corporate office of the Company SAS Tower

Sector-38, Gurugram-122001 inter alia to

consider and approve the Un-audited Financial

Results of the Company for the Half Year ended

on 30-09-2020 and to consider any other matter

The information contained in this notice is also

available on the website of the Company i.e.

(www.ramsonsprojects.com) and the website of

the stock exchange i.e. (www.bseindia.com).

For Ramsons Projects Limited

Megha Goe

TRINITY LEAGUE INDIA LIMITED

Regd. off.: A-23, Mandakini Enclave, Alaknanda, GK II, New Delhi-110019

Ph: 011-40562329, website: www.trinityasia.in; e-mail: trinityleague@trinitygroup.ind.in

CIN No. L93000DL1988PLC031953

A INFRASTRUCTURE LIMITED

Regd. Office: Hamirgarh-311 025, Distt. Bhilwara, Rajasthan

Website: www.ainfrastructure.com, Email:cs@kanoria.org,

CIN: L25191RJ1980PLC002077, Phone: 01482-286102, FAX: 01482 286104

NOTICE OF THE BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the

U. P. HOTELS LTD.

CIN: L55101DL1961PLC017307

Regd. Office: 1101, Surya Kiran, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001

Phone: 011-23722596-8, Fax: 011-23312990

Email: clarkssuryakiran@yahoo.co.in, Website: www.hotelclarks.com

NOTICE

We wish to inform you that pursuant to Regulation 29 & 30 of the Securities and Exchange

Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the

meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday

the 11" November, 2020 inter alia to consider and approve the un-audited financial results

for the quarter and half year ended 30° September, 2020 and matters related to voluntary

with the permission of the chair.

Investment Company Limited

Mumbai, 400004, Maharashtra

Website: www.bglgroup.in NOTICE Notice is hereby given in pursuant of the

Company will be held on Thursday, 12th November, 2020, at 3.00 p.m. at the Corporate Office of the Company, at A-9A, Green Park Main, New Delhi -110016 to inter-alia consider and approve Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30" September, Date: 04.11.2020

also available on the Company's website

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 12th Day of November, 2020, interalia, to consider and approve the Unaudited Standalone /Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year Ended or

(www.alchemist.co.in) as well as on the website of stock Exchanges i.e. BSE (https://www.bseindia.com) and NSE (https://www.nseindia.com) Pursuant to Code of conduct to regulate, monitor and report trading by all the

14th November, 2020 i.e., after 48 hours of declaration of the Unaudited Financial Results of the Company. For Alchemist Limited

Bikram Bhattacharya Place- New Delhi Whole Time Director DIN: 03595530

सूचकांक 355 अंक उछला

दानापुर – आनन्द विहार ट

आनन्द विहार ट. – दानापुर

सहरसा ज.–आनन्द विहार ट.

आनन्द विहार ट.—सहरसा ज

जनसाधारण एक्सप्रेस

दरभंगा ज –अमतसर ज

जनसाधारण एक्सप्रेस

जनसाधारण एक्सप्रेस

सहरसा ज.–अमृतसर ज.

अमतसर ज.-सहरसा ज

दलालो से सावधान

जनसाधारण एक्सप्रेस

जनसाधारण एक्सप्रेस

रेल टिकट सदैव रेल टिकट काउन्टर/

अधिकृत रेल एजेंट से ही खरीदें।

जनसाधारण एक्सप्रेस

03257

03258

05529

05211

05531

मुंबई, ४ नवंबर (भाषा)।

शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही और सूचकांक 355 अंक मजबूत होकर बंद हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने से पहले दुनिया के ज्यादातर बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच घरेलू बाजार में मजबूती आई।

बाजार में अच्छी हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और आइटी कंपनियों के शेयरों में अच्छी लिवाली से तेजी को बल मिला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में गिरावट से धारणा

मोदी नेचुरल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 405, दीपाली बिल्डिंग, 92, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019

(CIN: L15142DL1974PLC007349)

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताए) विनियमन, 2015, के विनियम 29 और विनियम 47 के अनुसार, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि अन्य बातों के साथ—साथ, 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाड़ी के

लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार

अनुमोदन और रिकॉर्ड पर लेने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 10 नवम्बर, 2020 को आयोजित की

उक्त बोर्ड बैठक की सूचना कंपनी और बीएसई की वेबसाइट www.modinaturals.com, www.bseindia.com

SRM Energy

SRM ENERGY LIMITED

Regd. & Admin Office: 21. Basant Lok

Complex, Vasant Vihar, New Delhi-110057

CIN L17100DL1985PLC303047

TEL. NO. +91-011-41403205

Pursuant to Regulation 47 read with Regulatio

29 of the Securities and Exchange Board of India

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting o

the Board of Directors of the Company is

scheduled to be held through Video

Conferencing on Wednesday, November 11, 2020 at 12:15 p.m.to be hosted from the

Registered Office of the Company i.e., 21

10057 to inter-alia consider the followings:

September, 2020.

Board may deem fit.

(www.bseindia.com)

The un-audited Financial Results

(Standalone & Consolidated) for the second

To transact any other business which the

This information is also available on the website

of the company viz. www.srmenergy.in and the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. BSE Limited

Place: New Delhi Company Secretary Date: November 4, 2020 ACS: 22747

परिचालनों से कुल आय

के शेयर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)

अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार)

तिथि: 4.11.2020

स्थानः नई दिल्ली

सं

प्रचालनों से कुल आय

प्रदत्त समता अंश पूँजी

(रुपये में)

(अ) मूलभूत

(ब) तरल

प्रदत्त ऋण पूँजी / बकाया ऋण

अवधि के लिए कुल व्यापक (हानि)/ आय

प्रदत्त इक्विटी पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)

For SRM Energy Limited

कर तथा एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रमों में (हानि)/ला

कर तथा विशिष्ट मदों के बाद अवधि के लिए शुद्ध

पनर्मल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित (अंति

आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (वार्षिकीकत नहीं

(Suvindra Kumar)

quarter and half year ended on 30th

Disclosure

कृते मोदी नेचुरल्स लिमिटेड

पर उपलब्ध है।

प्रभावित हुई। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सूचकांक 355.01 अंक यानी 0.88 फीसद मजबूत होकर 40,616.14 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 95 अंक उछलकर 11,908.50 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में इंडसइंड बैंक रहा। इसमें 4.85 फीसद की तेजी आयी। सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, कोटक बैंक और टेक महिंद्रा में भी अच्छी तेजी रही। दूसरी तरफ जिन शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, उनमें एचडीएफसी, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, एनटीपीसी व एलएंडटी हैं।

रुपया 35 पैसे लुढ़क कर 10 सप्ताह के निम्नतम स्तर पर

मुंबई, ४ नवंबर (भाषा)।

त्योहार विशेष रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि

आगामी त्यौहारों के मद्देनजर, रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु रेलवे द्वारा त्यौहार विशेष रेलगाड़ियों की संख्या

में और वृद्धि की गई है। नई घोषित निम्नलिखित त्यौहार विशेष रेलगाड़ियों की समय—सारणी व अन्य विवरण निम्नानुसार है:–

तिथि

प्रारंभिक स्टेशन से

30.11.2020 तक

11.11.2020 से

01.12.2020 तक

11.11.2020 से

25.11.2020 तक

12.11.2020 से

26.11.2020 तक

10.11.2020 से

12.11.2020 से

15.11.2020 से

एल्केमिस्ट कॉपरिशन लिमिटेड

पंजी. कार्या.: आर-4, यूनिट नं. 103, 1ला तल, खिड़की एक्सटेंशन मैन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017

CIN: L74899DL1993PLC055768, Email: info@alchemist-corp.com, Phone: 011-29544474

30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छ: महीने का अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

समाप्त छ: महीने

(अनंकेक्षित)

17.66

3.47

2.58

2.58

0.05

0.05

टिप्पणी: 1. उपरोक्त स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमों तथा लागू होने वाली सीमा तक अन्य मान्यता प्राप्त लेखा सिद्धांतों तथा नीतियों के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013

2. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामी

30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु अनअंकेक्षित एकल एवं संचित वित्तीय परिणाम

(2)

अनअंकेक्षित

1508.44

171.54

160.97

235.53

176.50

337.47

329.84

57.48

58.71

58.71

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेन्जों के पास दाखिल किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों का उद्धरण है। तिमाही एवं

समाप्त तिमाही

अनअं के क्षित

1756.58

355.09

248.27

248.27

283.23

57.48

43.19

43.19

वार्षिक परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्जों की वेबसाइट (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.srf.com) पर उपलब्ध है।

(स्टैंडएलॉन एवं समेकित) के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामीं (स्टैंडएलॉन एवं समेकित) का सम्पर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

30.9.2019

11.88

0.90

0.74

0.74

0.01

30.9.2020

समाप्त वर्ष

31.3.2020

अंकेक्षित

34.2

4.60

4.24

4.2

(67.22

पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091

समाप्त अर्द्ध वर्ष

(3)

अनअंकेक्षित

3054.25

507.32

357.37

357.37

405.35

57.48

250.00

62.17

62.17

30 सितम्बर 20 30 सितम्बर 19 30 सितम्बर 20 30 सितम्बर 19 30 सितम्बर 20 30 सितम्बर 19 30 सितम्बर 20 30 सितम्बर 19

(1)

अनअंके क्षित

2100.83

432.07

315.68

(0.54)

(0.48)

315.20

334.29

57.48

54.83

54.83

(4)

अनअं के क्षित

3032.48

364.64

307.24

241.82

180.59

487.83

470.23

57.48

300.00

84.87

84.87

फोन (पंजीकृत कार्यालय): (+91-11) 49482870 | फैक्स: (+91-11) 49482900 | ई-मेल: info@srf.com | वेबसाइट: www.srf.com | सीआईएन: L18101DL1970PLC005197

पाप्ताहिक

साप्ताहिक

नोटः रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन

आदि सहित कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी

स्टैंडएलान

30.9.2019

6.38

0.28

0.12

0.00

नियमों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।

समाप्त तिमाही

30.6.2020

(अनंकेक्षित)

4.84

3.94

0.08

एस आरएफ्र लिमिटेड

30.9.2020

6.58

(1.37)

(1.37)

(0.03)

की धारा 133 के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (''इंड एएस'') के अनुसार तैयार किया गया है।

(www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.alchemist-corp.com) पर उपलब्ध है।

विवरण

जारी प्रचालनों से कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि)

बंद प्रचालनों से कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि)

जारी प्रचालनों से कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि)

बंद प्रचालनों से कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि)

कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (बंद प्रचालनों सहित)

अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर

पश्चात्) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल कर के]

प्रति अंश आय (रु.10 /— प्रत्येक के) (जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु,

विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को रुपए की विनिमय दर 35 पैसे लुढ़क कर लगभग 10 सप्ताह के निम्नतम स्तर 74.76 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे व भारत में वित्तीय प्रोत्साहन की एक और पेशकश को लेकर स्पष्टता के इंतजार में

10.11.2020 से | रेलगाड़ी सं. 13257/58 दानापुर – आनन्द विहार ट. – दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस के अनुरूप

मुरादाबाद, हापुड़ एवं गाजियाबाद स्टेशन। **द्वितीय आरक्षित श्रेणी**

30.11.2020 तक मेहसी, चिकया, पिपरा, बापुधाम मोतिहारी, सगौली जं., बेतिया, चनपटिया, नरकटियागंज

02.12.2020 तक जगाधरी, अंबाला कैंट जं., राजपुरा जं., सरहिंद जं., ढंडारी कलां, लुधियाना जं., फिल्लीर

29.11.2020 तक एस भख्तियारपुर, मानसी जं., खगड़िया जं., हसनपुर रोड, रुसेरा घाट, समस्तीपुर जं

16.11.2020 से | गोरखपुर, बस्ती, गोंडा जं., सीतापुर जं., बरेली, मुरादाबाद, लक्सर जं., सहारनपुर, अंबाल

30.11.2020 तक किंट जं., चंडीगढ़, लुधियाना जं., जालंधर सिटी एवं ब्यास स्टेशन। द्वितीय आरक्षित श्रेणी

समाप्त तिमाही

30.6.2020

4.84

3.94

0.08

(अनंकेक्षित

2427-2020

30.9.2020

6.58

(1.48)

(1.48)

(0.03)

आरा, बक्सर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. वाराणसी जं., लखनऊ एवं मुरादाबाद स्टेशन

रेलगाड़ी सं. 15529/30 सहरसा ज. – आनन्द विहार ट. – सहरसा ज.जनसाधारण एक्सप्रेस के अनुरूप

एस भख्तियारपुर, मानसी जं., खगड़िया जं., बेगू सराय, बरौनी जं., समस्तीपुर जं

मुजफ्फरपुर जं., बापुधाम मोतिहारी, सगौली जं., बेतिया, नरकटियागंज जं., हरिनगर

बगहा, कप्तानगंज जं., गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर जं., गोंडा जं., सीतापुर जं., चंदौसी जं

रेलगाड़ी सं. 15211/12 दरभंगा ज. – अमृतसर ज. – दरभंगा ज. जनसाधारण एक्सप्रेस के अनुरूप

लहेरिया सराय, हयाघाट, समस्तीपुर जं., कर्पूरीग्राम, ढोली, मुजफ्फरपुर जं., मोतीपुर

जं., हरिनगर, बगहा, खाड़ा, सिसवा बाजार, घुघुली, कप्तानगंज जं., पिपराइच, गोरखपुर

बस्ती, गोंडा जं., बुढ़वल जं., महमूदाबाद अवध, सीतापुर जं., सीतापुर सिटी, मैकलगंज

शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद जं., लक्सर जं., सहारनपुर, यमुनानगर

जं., फगवाड़ा जं., जालंधर कैंट, जालंधर सिटी एवं ब्यास स्टेशन। **द्वितीय आरक्षित श्रेणी**

रेलगाड़ी सं. 15531/32 सहरसा ज.–अमृतसर ज. – सहरसा ज.जनसाधारण एक्सप्रेस के अनुरूप

मुजफ्फरपुर जं., हाजीपुर जं., सोनपुर जं., छपरा, सीवान जं., भटनी जं., देवरिया सदर

नोटः अधिक जानकारी हेतु कृपया रेलवे पूछताछ नं. 139 से सम्पर्क करें

या वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर सम्पर्क करें।

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

समेकित

30.9.2019

6.38

(0.29)

(0.46)

(0.46

(0.01)

(0.01)

संचित

समाप्त तिमाही

(2)

अनअं के क्षित

1737.80

205.05

200.93

158.00

100.20

301.13

292.35

57.48

52.39

52.39

(ईपीएस आंकडे छोडकर रु. लाखों में

30.9.2019

11.88

(0.30)

(0.47)

(0.47)

(0.01)

एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लि. के लिए

समाप्त अर्द्ध वर्ष

अनअंकेक्षित

3501.09

436.00

376.27

167.92

114.08

490.35

484.57

57.48

300.00

85.31

85.31

कृते एवं मंडल की ओर से

आशीष भरत राम

प्रबन्ध निदेशक

(3)

अनअंकेक्षित

3645.98

658.24

492.55

(0.29)

(0.26)

492.29

552.56

57.48

250.00

85.64

85.64

बोर्ड के आदेश से

(प्रबंधक निदेशक

DIN: 3322557

सोहन लाल

समाप्त वर्ष

31.3.2020

(अंकेक्षित)

34.24

2.46

2.04

(70.06)

समाप्त छ: महीने

(अनंकेक्षित)

17.66

3.35

2.46

30.9.2020

निवेशकों ने सतर्कता का रुख अख्तियार कर रखा था। अंतरबैंक विदेशी-मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 74.74 पर खुला और कारोबार के दौरान 74.57 के उच्च स्तर और 74.90 रुपए निम्न स्तर को छुआ। कारोबार के अंत में रुपया अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 35 पैसे की हानि के साथ 74.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

आयकर दाताओं को नई दिल्ली, 4 नवंबर (भाषा) **1.29 लाख करोड़**

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड क्कि INDIA LIMITED

पंजी. कार्यालय : इंजीनियर्स इंडिया हाउस,

फोन : 011–26762121, फैक्स : 011–2617821

ई-मेल : company.secretary@eil.co.in

वेबसाइट : http://www.engineersindia.com सीआईएन : L74899DL1965GOI004352

एतद्द्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण

अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की अगली बैठक बृहस्पतिवार

12 नवम्बर, 2020 को प्रातः 11.00 बर्जे कम्पनी के

पंजीकत कार्यालय : ईआई हाउस 1 भीकार्ज

कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 में आयोजित

की जाएगी जिसमें अन्य के साथ 30 सितम्बर

2020 को समाप्त द्वितीय तिमाही हेतु कम्पनी के

अलेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय

परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किया जाएगा

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइद

www.engineersindia.com पर तथा स्टॉक

एक्सचेन्जेज की वेबसाइट www.bseindia.com

एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है

लीडिंग लीजिंग फाईनेंस एंड

इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 811, छठवाँ तल, प्रगति टॉवर 28, जेन्द्र प्लेस, मेट्रो स्टेशन के सामने, नई दिल्ली—11000। (ईमेल) leadingleashing@amail.com

सूचना

तदद्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी (सुचीबद्ध दायित

कृते इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

. जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

भीकाजी कामा प्लेस. नई दिल्ली-110066

आयकर विभाग ने इस वित्त वर्ष में अब तक 39 लाख से अधिक स्पए का रिफंड जारी करदाताओं को कुल 1.29 लाख

करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए हैं आयकर विभाग ने बताया कि इसमे 34,820 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर और 94,370 करोड़ रुपए कार्पोरेट कर के रिफंड हैं।

नाम सिक्योरिटीज लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1994PLC350531

ई-मेल आईडी : compliance@namsecurities.in

वेबसाइट : www.namsecurthesin, दूरभाष : 011-23731122/44

हिन्दुस्तान एवरेस्ट टूल्स लिमिटेड CIN: L74899DL1962PLC003634

पंजी. एवं एच.ओ. 46, दोहिल चैम्बर्स, 4था तल. नेहरू प्लेस. नई दिल्ली-110019 Ph.: 91-11-46579476

E-mail: admin@everesttools.com Website: http://www.everesttools.com बोर्ड की बैठक की सुचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीय दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 तथा लागू होने वाले अन्य विनियमनों के साथ पठित विनियमन 29 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के निदेशव मंडल की एक बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्ब 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा एजेण्डा में वर्णि किसी अन्य व्यवसायों पर विचार, अनुमोदन क अभिलेख में लिये जाएंगे।

स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाइट www.everesttools.com पर र्भ

हिन्दुस्तान एवरेस्ट टूल्स लिमिटेड के लिये हस्ता./ सोनम गुप

PRABHAT SECURITIES LIMITED

NOTICE

given that (06/2020) Board Meeting of the Company is scheduled to be held at its Regd. Office, Kanpur on Thursday 12th September, 2020 at 12.30 P.M., inter alia o consider and approve the Un-Audited inancial Statements of the Compan

for the quarter and half year ended 30th for the quarter and half year ended 30th September, 2020.
The trading window in respect of company's securities shall open after 4hours of declaration of financial result of the Company for the Quarter and half year ended 30th September, 2020.
The said Notice may be accessed on the Company's website at http://www.

prabhatsecuritiesItd.com and may also be accessed at CSE & MSEI website at http://www.cse-india.com &

For Prabhat Securities Limited Ramakant Kushwaha Place: Kanpur Date: 14.11.2020 (Managing Director)

युफ्लैक्स लिमिटेड

CIN: L74899DL1988PLC032166 ानोट कॉर्नर, पाम्पोष एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1 ाई दिल्ली-110048, फोन : +91-11-2644091 26440925, फैक्स : +91-11-26216922 वेबसाईट : www.uflexltd.com

इमेल : secretarial@uflexitd.com सूचना

तददारा सचित किया जाता है कि यूपलैक्स लेमिटेड के निर्देशक मंडल की बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को नोएडा में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सतम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित एंव अभिलेखित किया जाएगा।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.uflexitd.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> और www.nseindia.com. पर भी उपलब्ध है।

कृते यूफ्लैक्स लिमिटेड अजय कृष्णा

वरि. वी.पी. (लीगल) एवं कम्पनी संचिव ACS No.3296

ई–8, सेक्टर–61, नोएडा–201301 स्थानः नई दिल्ली

टिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड

सीआईएन नं. L93000DL1988PLC031953

त्रुवाना तक्कारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुसार तन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामी (स्टैंडएलोन एवं समेकित) पर विचार तथा अनुमोदन हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बृहस्पतिवार, 12 नवम्बर, 2020 को इस सचना में निहित सचना कम्पनी की वेबसाइट www.trinitvasia.in तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseir

तिथि: 04.11.2020

यूपी होटल्स लिमिटेड

CÎN: L55101DL1961PLC017307

पंजीकृत कार्यालयः 1101, सूर्य किरण, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन.: 011-23722596-8, फैक्स: 011-23312990 ईमेल.: clarkssuryakiran@yahoo.co.in वेबसाईट: www.hotelclarks.com

हम आपको सुचित करना चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाट

बुधवार 11 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सित., 2020 को समाप्त तिमार्ह था छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा कम्पनी द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक समापन प्रक्रिय प्ते संबंधित विषयों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

यह सूचना स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाई vww.hotelclarks.com पर भी उपलब्ध है।



सूचना

को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ, 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) पर विचार

उपरोक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर देखी जा सकती है तथा स्टोक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

दिनांकः 04.11.2020 स्थानः नई दिल्ली

http://embeeip.com पर देखी जा सकती है।

इंटरनेशनल लिमिटेड

भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सचीबद्धता ए डस्क्लोजर आवश्यकता) रेग्यूलेशन 2015 के नियम 47 (1)(ए) के तहत यह सचित किया जाता है कि कंपनी व ादेशक मंडल की बैठक गुरूवार, 12 नवम्बर, 2020 क प्रातः 10.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 312 नवजीवन कॉम्पलेक्स, 29, स्टेशन रोड, जयपुर आयोजित की जा रही है, जिसमें अन्य विषयों के सार 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और अर्द्धवार्षिव वर्ष के लिए कंपनी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों प विचार एवं स्वीकति दी जायेगी। यह सचना कम्पनी व वेबसाईट www.vinayakpolycon.com और स्टॉव क्सचेज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भ निदेशक मंडल के आदेशानुस

दिनांक : 04.11.2020

(भारत सरकार का उपक्रम) पंजीकृत कार्यालयः कर्जानिथिः, 1, वाराखम्बा लेन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली–110001

एवं अनुमोदन किया जाएगा ।

विनायक पोलीकॉन CIN No.: L25209RJ2009PLC030620

जर्यपुर-302006 (राज.) इंडिया। फोन : +91-141-2377007 <u>नोटिस</u>

वास्ते-विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिट

यह सूचना जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, उन

कम्पनी सचिव

R/O: 118/610 A, Kaushalpuri - 208012 Ph: 512-2526347, E Mail: prabhatsecurities@gmail.com,

E Mail: prabhatsecurities@gmail.com Website: www.prabhatsecuritiesltd.com

रपिद्वार्श सूचित क्रिया जाता है कि निवा (सूचाबद्ध याविप और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में, अन्य विषयों के साथ 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने Pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (LODR) Regulations, 2015, NOTICE is hereby क तिए अलखापराशित वित्तीय पारिणामा पर विचार करन और रिकार्ड पर लेने तथा अन्य कोई व्यवसाय जो आवश्यक समझा जाए, के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में गुरुवार, दिनांक 12 नवंबर, 2020 को अपराहन 3.00 को आयोजित की जायेगी। बोर्ड के आदेशानुसार हिते **लीडिंग लीजिंग फाईनेंस एंड** इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड हस्ता./— (अमी जिनेन शाह)

तिथि: 4 नवम्बर, 2020

पूर्णकालिक निदेशक डीआईएनः 06792048 8, गिरिराज, दूसरा तल, खटोचीवाड़ी, वी.पी. रोड, मुंबई–400004, महाराष्ट्र

शार्यलाइन बॉडकास्ट तिमिटेड (पूर्वर्ता आर्थेत डॉल्डेंग्स एंड क्रेडिट्स लिम्टेड) एंजीकृत कार्यालयः उर, दूसरा चल, रागी आर्थी ऐव, मोविया खान, थडाक्गेज, दिल्ली—11005 स्रोको sharplinshradacastimited@mail.com L22100DL1990PLC039464

सूचना एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण मूँ अन्य विषयों के साथ 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और रिकार्ड पर लेने तथा अन्य कोई व्यवसाय जो आवश्यक समझा जाए, के लिए कंपनी के निरंशक मंडल की बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बुधवार, दिनांक 11 नवंबर, 2020 को अपराहन 3.00 बजे आयोजित की जायेगी। बोर्ड के आदेशानुसार

हिते शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड

दिनांकः 04.11.2020 सी-304, संसद विहार अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. संक्टर-3, एन.एस.एल.टी. द्वारका-1100 HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

Registered Office: B-2/8 SAFDARJUNG **ENCLAVE NEW DELHI -110029** <u>Notice</u>

Notice is hereby given pursuant to Regula 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, that a meeting of the Board Wednesday, 11th November, 2020 at 2:00 P.M. inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for nuarter ended on 30th September, 2020.

The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.baglagroup com and the website of the Stock Exchang For Hindustan Adhesives Limited

M.S. Bagla

Managing Director DIN-01425646 Date: 04.11.2020 नीरज इस्पात इंडस्टीज लिमिटेड

गली पेटी वाली, रुई मेडी, सदर बाजार, उत्तर दिल्ली-110006 (E) nirajispatindustries@gmail.com,

(W) www.nirajispat.in CIN: L27106DL1985PLC021811. फोन: 011-23551821

भू भाग वी (स्चीयन दायित्व तथा उदमादन अपेक्षा) विनियमन, 2015 ह विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में तद्द्वारा सृचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की क बैठक गुरुवार, 12 नव. 2020 को 2.00 बजे अप. में कम्पन 5 पंजीकत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषय के साथ 30 सित. 2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्ती ह साथ 30 सित. 2020 का समाज तिमाश क जानमाज्या हुन्य रिणामों तथा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य व्यवसायों प वेचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे। **बोर्ड के आदेश** रे

नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिख (हरियंत कुमार चौधरी

तिथि: 4.11.2020 DIN: 0002179 केडी-46 कवि सार गाजिसबाट KUWER INDUSTRIES LIMITED

R.O.: D-1004, First Floor, New Friends Colon New Delhi- 110065 CIN: L74899DL1993PLC056627, Tel. No. 011-26848636 Email I.D info@kuwer.com Website- www.kuwer.com

NOTICE Notice is hereby given pursuant to regulation 4 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that the ting of the Board of Directors is scheduled t be held on Thursday, 12.11.2020, at 02:00 P.M. a gistered office of Company at D-1004. First loor, New Friends Colony, New Delhi- 110065 to

To approve the un-audited financial results for the quarter and half year ended on 30th day of September, 2020. Any other matter with the permission of the

onsider the following:

The intimation contained in this notice is also available on Company's website www.kuwer.com and <u>www.bseindia.com</u> For Kuwer Industries Limited

Date: 05.11.2020 Jagdish Chandra Company Secretary Place: New Delhi

जीकत कार्यालय : 312. नवजीवन कॉम्पलेक्स. 29. स्टेशन रो

कंपनी सचिव ए अनुपालन अधिका

सूचना (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के यम 47 के साथ पंटित विनियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2020 को समा तिमाही तथा छमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों प तमाठा तथा छनाठा ठतु कम्मना क अल्लाआरतावाता तथावा पारणामा प्र वेचार करने तथा अनुमोदन के लिए नाम सिक्योरिटीज लिमिटेड है नेदेशक मण्डल की एक बैठक शुक्रवार, 13 नयम्बर, 2020 को इसरे ांजीकृत कार्यालय 213, अरुणाचल विल्डिंग, 19, बाराखम्मा रोड, न देल्ली–110001 पर 04.00 बजे अपराहन आयोजित की जायेगी। पुन प्रेबी (आन्तरिक व्यापार निषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 ाधानों के अनुसार व्यापार निषेध अवधि के सम्बन्ध में 2 अप्रैल, 20 ो इनसाइडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा प्रतिवेदन चालन के लिए कम्पनी की आचार संहिता के कारण व्यापारिक खिड़ 3 नवम्बर, 2020 को परिणामों की घोषणा की पूर्णता के 48 घ

3 नवम्बर, 2020 को रचात तक बन्द रहेगी। यह सूचना बीएसई की वेबसाइट (https://www.bseindia.com था कम्पनी की वेबसाइट (http://www.namsecurities.in/)

मिशका एक्जिम लिमिटेड **पंजीकृत कार्यालय**: जी-31, ग्राऊन्ड फ्लोर कास रीवर माल. सीबीडी ग्राऊन्ड,

शाहदरा. नई दिल्ली- 110032 CIN: L51909DL2014PLC270810 वेबसाइट- www.mishkaexim.com ई-मेल - MISHKAEXIM@GMAIL.COM

सूचना सेबी (सची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) 2015 के क्लाज 29 के अनुसरण में एतदद्वार 2020 को समाप्त कम्पनी के तिमाई अनअंकेक्षित एकीकत एवं संगठित वित्तीर परिणामों पर अन्य तथ्यों के साथ विचार नुमोदन एवं रिकार्ड में ग्रहण करने हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बंधवार नवम्बर 11, 2020 को सायं 03:30 बजे आयोजित करनी

कृते मिशका एक्जिम लिमिटेड रजनीश गुप्ता तिथि: 04.11.2020 प्रबन्ध निदेशव DIN: 00132141

बोर्ड के आदेशानसा

पुरुप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में} केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

अल्टीमेट इन्वेस्टोफिन लिमिटेड (CIN: U65933DL1991PLC266069) जिसका पंजीकत कार्यालय : डी -26 डीएसआईआई डीसी कॉम्प्लेक्स, कीर्ति नगर, नई दिल्ली -110015 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाक . रकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लेए **बुधवार 22 जुलाई, 2020** को आयोजित भसाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की

मांग की गई है । कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जेसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय बी—2 विंग दिल्ली— 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है

और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके लिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें । दी –26. डीएसऑर्डऑर्डडीसी कॉम्प्लेक्स

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर रं अल्टीमेट इन्चेस्टोफिन लिमिटेड

गरपीत सिंद (निटेशक) डीआईएन: 07021196

पंजीकृत कार्यालयः ए-23, मंदािकनी एन्कलेव, अलकनन्दा, जीके-II, नई दिल्ली-110019

पीयूष कुमार श्रीवास्त

सूचना

अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं 30 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठव

यूपी होटल्स लिमिटेड के लिर प्रकाश चन्द्र प्रुस्ती (कम्पनी सचिव

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक **गुरुवार, 12 नवम्बर, 202**0

मनोहर बालवानी (सीजीएम एवं कंपनी सचिव)

सार्वजनिक सूचना भारतीय दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12(3)

के साथ पठित विनियम 31(2)] प्रेमसंस सपर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड-परिसमापनाधीन के हितधारकों के ध्यानार्थ गरतीय दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम विनियः 31(2) के अनुसार एतद्वारा सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि परिसमापक द्वारा तैयार की गयी प्रेमसंस् सपर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड-परिसमापनाधीन (''कॉर्पोरेट देनदार'') के हितधारकों की सर्च 04.11.2020 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, पीठ III, नई दिल्ली के पास ई-फाइल कर दी गयी है। चूंकि कॉर्पोरेट देनदार की कोई क्रियात्मक वेबसाइट नहीं है अतः हितधारकों की सूची

मोहित चावल

परिसमापव मैसर्स प्रेमसंस सपर स्टील प्राइवेट लिमिटेड के मामले र आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00524/2017-2018/10949 एससीओ-2935-36. लेवल-1. सेक्टर-22C. चंडीगढ

पंजीकृत ई-मेल आईडी : ipservices@embeegroup.in तिथि: 04.11.2020 पत्राचार ई-मेल आईडी ip.premsons supersteel @gmail.comस्थानः चंडीगढ

रसायन व्यवसाय | पैकेजिंग फिल्म व्यवसाय | टेक्निकल टेक्सटाइल व्यवसाय

स्थान : गुरुग्राम दिनांक: 4 नवम्बर, 2020 हम हमेशा एक बेहतर तरीका ढूँढते हैं